



चलीये, कृषि को बचायें आनेवाली पीढ़ी के लिये...

जी-वीन ग्रुप



Quality Certificates



हमारा परिचय

जी-वीन प्रोडक्ट्स लीमीटेड


- वर्ष २०१० से कृषिक्षेत्र में कार्यरत कंपनी
- गुणवत्ता मानक ISO 9001:2015 से प्रमाणित
- किसानोंको कम लागत में अधिक पैदावर देते कार्यक्षम उत्पाद
- पारंपरिक उर्वरकों से भिन्न और अधिक परिणाम देते उत्पाद
- कृषिक्षेत्र में दसकों से अनुभवी विशेषज्ञ टीम
- प्रयोगशाला एवं खेत की सभी कसौटी पर खरे उतरते उत्पाद

जी-वीन कृषि लीक

- कृषि वैज्ञानिकों की सिफारिश पर तैयार किए गए बीज
- अधिकतम उपज के लिए संशोधित, हाइब्रिड एवं शुद्ध देशी बीज
- गेहूं, कपास, एरंड (रेंडी), तिल, जीरा, सरसों, मूंग, बाजरे की उत्तम वेरायटी
- बीज निष्णांतों और सलाहकारों के लगातार निरीक्षण में उत्पादित बीज
- वर्षों से विश्वासपात्र कंपनियों के विश्वसनीय बीज

पौधे के सर्वांगी विकास के लिये जरूरी तत्वों की कमी के लक्षण और उनको दूर करते जी-वीन उत्पाद

- (1) FERROSULF, CHALLENGE PRO
- (2) CALCIUM NITRATE
- (3) G-VIN KRUSHI KIT
- (4) ZINK SPARK, SIGNATURE
- (5) DAPG
- (6) JIVANT BIO POTASH, POTASHAM
- (7) VISION-20
- (8) CHALLENGE
- (9) SUPERCALC, LIGHT PRO
- (10) GV MAG
- (11) GV-ZINC, AUXIN
- (12) NITROCALC, GVUREA
- (13) ORGOCALC, POSHAN AMRUT
- (14) BLACK BOLD
- (15) ROCKSTAR
- (16) LIGHT PRO



ब्लेक बोल्ड®

जैविक घटक अने तत्व : एंडो और अेक्टो माइकोराइझा (60 spores/1200 IP/gm), ह्यूमिक, फुल्विक, अेमोनो अेसीड, सी-वीड, प्रोटीन

पेकींग : २.५ किग्रा (जार), ५ किग्रा (पाउच), ६ किग्रा, १२ किग्रा (बकेट)

डोझ : ६ से १२ किग्रा / एकड

उपयोग : किसीभी फसल में बुनियादी या पूरक उर्वरक के रूप में दे।

ब्लेक बोल्ड के उपयोग करने के लाभ...

- माइकोराइझा से पौधे की मुख्य जड़ें और तंतु जड़ों का विकास होता है।
- पौधों के उपर नई डाली, फूल और फल की संख्यामें बढ़ोतरी होती है।
- पानी की कमी और विपरीत वातावरणमें टीके रहने के लिये पौधे को मदद करता है।
- पी.अेच. को नियंत्रित कर के जमीनमें कार्बन की पूर्ति करता है।
- माइकोराइझा पौधे की साथे जडो के साथ जुडकर फोस्फरस एवं आवश्यक सुक्ष्मतत्वो को ग्रहण करने में मदद करता है।
- माइकोराइझा अपनी घुलनशील प्रक्रिया के दौरान विविध होर्मोन्स और अेसीड बनाकर फसल के विकास में बढ़ावा करता है।

सोइल न्यूट्रियन्ट
बायो फर्टीलाइज़र



तत्व : फेरस (१८ %) + सल्फर (१२ %)

पेकींग : ३ किग्रा (पाउच)

डोझ : ३ से ६ किग्रा / एकड,
१०० ग्राम / पंप (सिर्फ मुंगफली के लिए)

उपयोग : किसीभी फसल में बुनियादी या पूरक उर्वरक के रूप में दे।

फेरोसल्फ के उपयोग करने के लाभ...

- फसलमें आयर्न एवं सल्फर की पूर्ति करता है।
- पत्तोंमें क्लोरोफिल को बढ़ाता है और पत्तों को हरा रखता है, खासकर मुंगफलीमें फेरस की कमी से होनेवाले पीलेपन को दूर करके मुंगफलीमें तेल की मात्रा बढ़ाता है।
- प्रकाश संश्लेषण और पौधों की भोजन ग्रहणशक्ति प्रक्रिया को बढ़ाता है
- मानव आहार में आयर्न की कमी को दूर करने खाद्य फसलों में फेरोसल्फ का उपयोग जरूरी छे.

नोध : मुंगफली के अलावा अन्य फसलों में छिंडकाव के लिये कंपनी ओफीसर की सिफारीश के अनुसार ही प्रयोग करें।



फेरोसल्फ एक्स्ट्रा

सप्रे न्यूट्रीयन्ट



तत्व : फेरस (१८ %), सल्फर (१२ %) + साइट्रिक एसिड (१०० ग्राम)

पेकींग : १.१ किग्रा (पाउच)

डोझ : १०० ग्राम + १९ ग्राम / पंप मुंगफली के लिये


उपयोग : १ किग्रा + १०० ग्राम का आवश्यकता अनुसार डोझ बनाकर छिंडकाव करें।

फेरोसल्फ एक्स्ट्रा के उपयोग करने के लाभ...

- फसलमें आयर्न, सल्फर एवं साइट्रिक एसिड की पूर्ति करता है।
- पत्तोंमें क्लोरोफिल को बढ़ाता है और पत्तों को हरा रखता है, खासकर मुंगफलीमें फेरस की कमी से होनेवाले पीलेपन को दूर करके मुंगफलीमें तेल की मात्रा बढ़ाता है।
- प्रकाश संश्लेषण और पौधों की भोजन ग्रहणशक्ति प्रक्रिया को बढ़ाता है।
- मानव आहार में आयर्न की कमी को दूर करने खाद्य फसलों में फेरोसल्फ का उपयोग जरूरी है।

नोध : मुंगफली के अलावा अन्य फसलों में छिंडकाव के लिये कंपनी ओफीसर की सिफारीश के अनुसार ही प्रयोग करें।





जैविक घटक एवं तत्व : १) ग्रैन्युअल्स : PSB (1×10^8 spores/gm),

गौण एवं सुक्ष्मतत्व, २) ५०० मीली : अज़ोटोबेक्टर

(1×10^8 /ml), PSB (1×10^8 /ml) KMB (1×10^8 /ml),

विविध अंसीड अने होमोबन्स

पेकींग : १० किग्रा (८.५ किग्रा ग्रैन्युअल्स + ५०० मीली

लीकवीड पाउच)

डोझ : १० किग्रा / एकड

उपयोग : किसीभी फसल में बुनियादी या पूरक उर्वरक के रूप में दे।

रोकस्टार के उपयोग करने के लाभ...

- अनुपलब्ध अंन.पी.के. को मिट्टी में उपलब्ध कराता है और पौधों को उपयोगी बनाता है।
- गौण एवं सुक्ष्मतत्व और विभिन्न अंसीड और होर्मोन्स की उपस्थिति के कारण उत्तम परिणाम प्राप्त होता है।
- पी. अंच. आंक को नियंत्रित करने से मिट्टी उपजाऊ एवं अधिक उत्पादन के लिये सक्षम बनती है।
- पौधों पर नयी शाखायें, फूल एवं फलो की संख्यामें अधिकतम वृद्धि कराता है।
- फलो एवं पत्तियों को गिरने से रोककर पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।



ड्रीप न्यूट्रीयन्ट



तत्व : पोटाशम - ५ किग्रा, जीवीमेग - १० किग्रा, चेलैन्ज
प्लस - २५० ग्राम, चेलैन्ज प्रो - २५० ग्राम,
विझन-२० - २५० ग्राम, कार्बन ९५ - २५० ग्राम

पेकींग : १६ किग्रा (कोरोगेटेड बोक्ष)

डोझ : १ कीट / एकड

उपयोग : किसी भी फसल में ड्रीप के द्वारा प्रयोग किजिये ।

जी-वीन ड्रीप कीट के उपयोग करने के लाभ...

- ड्रीप कीट में फसल के लिये जरूरी और महत्वपूर्ण जैसे की पोटाश, गौणतत्व एवं सुक्ष्मतत्व मौजूद है, जो फसल के लिये सरलता से उपलब्ध बनते है ।
- गौण एवं सुक्ष्मतत्वों की कमी के कारण उत्तपन्न फसलों की सभी प्रकार की खपत को सुधारता है ।
- फसल की तंदुरस्त वृद्धि करके फसल की गुणवत्ता एवं उपजमें वृद्धि करता है ।
- ड्रीप कीटमें मौजूद कार्बन-९५ मिट्टी में मौजूद क।र्ब।न।क पदार्थों का मुख्य स्रोत है, जो लाभकारी बैक्टेरिया को अनुकूल वातावरण में तेजी से बढ़ने में मदद करता है ।
- कीटमें उपलब्ध सभी उत्पादन के संबंध में कंट्रोलिंगमें दिये गये उत्पादक के अनुसार लाभ समझे ।



समाविष्ट उत्पाद : सुपर केलक - २५ किग्रा, जीवी झींक - ३ किग्रा, ब्लेक बोल्ड - ५ किग्रा, फेरोसल्फ - ३ किग्रा, नाइट्रोकेल्क - १ किग्रा, विज्ञान - २५० ग्राम

पेकींग : ३६.२५ किग्रा (लेमीनेटेड बेग)

डोझ : १ कीट / एकड

उपयोग : किसीभी फसल में बुनियादी या पूरक उर्वरक के रूप में दे।

जी-वीन कृषि कीट के उपयोग करने के लाभ...

- फसल के लिये जरूरी सभी गौणतत्व, सुक्ष्मतत्व एवं विविध अेसीड और होर्मोन्स अेक ही कीटमें समाविष्ट होने से फसल गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन देने के लिये सक्षम बनती है।
- गुजरातमें होनेवाले खरीफ, रवि, सब्जी, बागायत, फल-फूल सहित हर फसल में उपयोगी है।
- कीटमें उपलब्ध सभी उत्पादन के संबंध में केटलोगमें दिये गये उत्पादक के अनुसार लाभ समजे।



समाविष्ट उत्पाद : झींक स्पार्क - ५ किग्रा, ब्लेक बोल्ड - ५
किग्रा, जीवी मेग - १० किग्रा, फेरोसल्फ - ३
किग्रा, जीवंत PSF - २०० ग्राम

पेकींग : २३.२ किग्रा (रीसायकल बेग)

डोझ : १ कीट / एकड

उपयोग : किसीभी फसल में बुनियादी या पूरक उर्वरक के
रूप में दे।

जी-वीन आधार कीट के उपयोग करने के लाभ...

- फसल के लिये जरूरी सभी गौणतत्व, सुक्ष्मतत्व एवं विविध
ऐसीड और होर्मोन्स अेक ही कीटमें समाविष्ट होने से
फसल गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन देने के लिये सक्षम
बनती है।
- गुजरातमें होनेवाले खरीफ, रवि, सब्जी, बागायत, फळ-फूल
सहित हर फसल में उपयोगी है।
- कीटमें उपलब्ध सभी उत्पादन के संबंध में केटलोगमें दिये
गये उत्पादक के अनुसार लाभ समजे।



तत्व : झींक (३३ %), सल्फर (१५ %)
 पेकींग : १ किग्रा (जार), ३ किग्रा (पाउच)
 डोझ : ३ से ६ किग्रा / एकड
 उपयोग : किसीभी फसल में बुनियादी या पूरक उर्वरक के रूप में दे।

जीवी-झींक के उपयोग करने के लाभ...

- किसी भी पौधे को अपने विकास के लिये मिट्टी में से आवश्यक पोषकतत्वों को प्राप्त करने के लिये पौधों में अंतःस्त्राव बनाना जरूरी होता है, पौधे को इसी अंतःस्त्राव को बनाने के लिये झींक बहुत ही उपयोगी है।
- फसल द्वारा ग्रहण करने वाले नाइट्रोजन की पाचन क्रियामें सहायक भूमिका बजाता है।
- उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पादन लाने के लिये जरूरी भूमिका निभाता है।
- स्टार्च को शर्करा में रूपांतरित करने में झींक मदद करता है।
- जन आरोग्य के लिये अत्यंत जरूरी सुक्ष्म तत्व मतलब झींक.



झींक ⚡ स्पाक

सीइलन्युट्रीअन्ट
गुजरात गवर्मेन्ट ग्रेड-५



तत्व : झींक (५%), फेरस (२%), बोरोन (०.५%), कोपर (०.२%), मॅगनीझ (०.५%)

पेकींग : २ किग्रा (जार), ५ किग्रा (पाउच), १० किग्रा, २५ किग्रा (लेमीनेटेड बेग)

डोझ : १० से १६ किग्रा / एकड

उपयोग : किसीभी फसल में बुनियादी या पूरक उर्वरक के रूप में दे।

झींक स्पाक के उपयोग करने के लाभ...

- पौधों में से फूल-कलीयों को गिरने से और फलों को फटने से रोकता है।
- सूक्ष्मतत्वों की कमी के कारण पौधों का पीलापन और उसका लाल हो जाना रोककर पौधों का हरापन बनाये रखता है।
- सूक्ष्मतत्वों की कमी दूर करके पौधों का तंदुरस्त और सर्वांगी विकास करता है।
- पौधों जल्दी से ले सकें ऐसा सूक्ष्मतत्वों का सल्फेट स्वरूपमें परिवर्तित संमिश्रण है।
- गुजरातकी मिट्टी का अध्ययन करके गुजरात सरकार द्वारा दर्शाया गया ग्रेड है।



चेलेन्ज

- तत्व : जिंक (६%), फेरस (४%), कोपर (०.५%),
बोरोन (०.५%), मैंगेनीझ (१.०%)
- पेकींग : १८ ग्राम (पाउच), २५०, ५०० ग्राम (पाउच)
- डोझ : १८ ग्राम/पंप, २५० ग्राम/एकड
- उपयोग : किसी भी फसल में ड्रीप या स्प्रे के द्वारा प्रयोग करे।

चेलेन्ज के उपयोग करने के लाभ...

- स्प्रे पंप में सरलतासे इस्तमाल किया जा सके इस तरह खास एक पंप के लिये बनाया हुवा पाउच.
- सुक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर करके पौधे को तंदुरस्त रखता है।
- पौधे में से फूलों को गीरने से और फलों को फटने से रोकता है।
- सुक्ष्मतत्वों की कमी के कारण पौधे को पीला पड़ने से या लाल होने से रोकता है, पौधे का हरापन बनाये रखता है।
- बारीक रूपमें होने से फसल बहुत जल्द और सरलता से ग्रहण कर सकती है।
- गुजरात की मिट्टी का अभ्यास करके गुजरात सरकार द्वारा दर्शाया गया ग्रेड है।



ग्रोथ

स्प्रे/ड्रिप/सोइल न्यूट्रियन्ट
लीक्वीड कोन्सोर्टिया



जैविक घटक और तत्व : एंजेटोबेक्टर (1×10^8 /ml) PSB (1×10^8 /ml) KMB (1×10^8 /ml), अमीनो असेीड, फुल्वीक असेीड, ह्युमिक असेीड, सी-वीड अकस्ट्रेक्ट, विविध होर्मोन्स

पेर्कींग : २५ मिली (पाउच), २५० मिली , ५०० मिली,
१ लीटर (बोटल)

डोझ : २५ मिली/पंप, ५०० मिली/एकड

उपयोग : किसी भी फसल में कोई भी दवा के साथ मिश्रीत करके स्प्रे द्वारा, ड्रिप द्वारा या पानी के साथ मिलाकर दे ।

ग्रोथ के उपयोग करने के लाभ...

- पौधे पर नई शाखाओं, फूलों और फलों की संख्या में बढ़ावा करता है ।
- प्रतिकूल मौसम की स्थिति या अपर्याप्त पोषण के कारण फूल, फल को पौधे पर से गिरने से रोककर पौधे की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है ।
- प्रकाश संश्लेषणकी प्रक्रिया को बढ़ाता है, पौधों की खुराक लेनेकी प्रक्रिया को तेज बनाता है और पौधे का सर्वांगी विकास करता है ।
- ड्रिप इरीगेशनमें उपयोग करने से मिट्टी में मौजूद NPK को उपलब्ध करता है ।





तत्व : चीलेटेड फेरस (१२ %)

पेकींग : २५०, ५०० ग्राम (पाउच)

डोज : २५० ग्राम एकड,
१२ से १५ ग्राम / पंप (सिर्फ मुंगफली के लिये)

उपयोग : किसी भी फसल में ड्रीप या स्प्रे के द्वारा प्रयोग करे।

चेलेन्ज प्रो के उपयोग करने के लाभ...

- नाइट्रोजन और फोस्फरस की क्षमता को बढ़ाता है।
- मुंगफली में लोहतत्व की कमी से होनेवाले पीलेपन को दूर करके तेल की मात्रा को बढ़ाता है।
- पौधों में क्लोरोफिल के निर्माणमें उत्प्रेरक एवं ओक्सिजन वाहक के रूपमें कार्य करता है।
- वनस्पति की श्वसनक्रिया से जुड़े एंजाइम्स के निर्माणमें मदद करता है।
- चीलेटेड रूपमें होने के कारण फसल बहुत ही जल्दी और आसानी से उपयोग कर सकती है।

नोध : मुंगफली के बलावा अन्य फसल में छिड़काव के लिए

कंपनी अधिकारी की सिफारीश के अनुसार ही प्रयोग करे।

चेलेंज प्लस

- तत्व : चीलेटेड जिंक (१२ %)
पेकींग : २५०, ५०० ग्राम (पाउच)
डोज : २५० ग्राम एकड, १२ से १५ ग्राम / पंप
उपयोग : किसी भी फसल में ड्रिप या स्प्रे के द्वारा प्रयोग करें।

चेलेंज प्रो के उपयोग करने के लाभ...

- जिंक विभिन्न एंजाइमों का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो चयापचय के विभिन्न कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार है।
- स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है।
- पौधे के विकास से जुड़े अंतःस्रावों को बनाता है।
- वनस्पति में प्रोटीन संश्लेषण के लिये जिम्मेदार एंजाइमों को सक्रिय करता है।
- फसल की उचित वृद्धि और महत्तम उपज के लिये जिंक की निरंतर आपूर्ति आवश्यक है।
- चीलेटेड रूप में होने के कारण फसल बहुत ही जल्दी और आसानी से उपयोग कर सकती है।

स्प्रे / ड्रिप / सोइल न्यूट्रियन्ट



तत्व : पोटेसियम (२३%), मेग्नेशियम (११%) और सल्फर (१५%)

पेकींग : १ किग्रा, ५ किग्रा (पाउच)

डोझ : १०० ग्राम / पंप, ५ से १० किग्रा / एकड

उपयोग : स्रे, स्त्रीप, बुनियादी या पूरक उर्वरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

पोटाशम के उपयोग करने के लाभ...

- फसल की वृद्धि एवं उत्पादन के लिए आवश्यक तीनों तत्व पोटेसियम, मेग्नेशियम, सल्फर की बहुत ही सरलता से पूर्ति करता है।
- एक ही दाने में तीनों पोषकतत्व मौजूद होने से फसल को अेक समान तरीके से तत्वों की पूर्ति करता है।
- पानीमें सरलतासे द्राव्य होने का गुणधर्म रखता है और पौधे का सर्वांगी विकास में जल्द ही उपलब्ध होता है।
- कलोराइड से मुक्त और तटस्थ पी.अेच. आंक होने के कारण अेसीडीक और आल्कलीक दोनों प्रकार की मिट्टी में उपयोग किया जा सकता है।



कार्बन-९५

तत्व : कार्बन (१४%), नाइट्रोजन (०.५%), फोस्फोरस (०.५%), पोटाश (०.५%)

पेकींग : २५०, ५०० ग्राम (पाउच)


डोज : २५ ग्राम/पंप, २५० ग्राम/एकड

उपयोग : किसी भी फसल में ड्रीप या स्प्रे के द्वारा प्रयोग करे।

कार्बन-९५ के उपयोग करने के लाभ...

- कार्बन मिट्टी में मौजूद जैविक पदार्थों का मुख्य स्रोत है जो लाभकारी बैक्टेरिया को तेजी से बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।
- पी.एच. स्कोर को नियंत्रित करके मिट्टी में कार्बन की आपूर्ति करता है।
- रासायनिक उर्वरकों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है।
- मिट्टी की नमी संग्रह शक्ति और उर्वरता बनाए रखता है।
- मिट्टी और पानी की संरचना का संतुलन बनाए रखता है और पौधे के जड़ क्षेत्र को विकसित करता है।

स्प्रे / ड्रीप / सोइल न्यूट्रियन्ट



तत्व : बोरोन (२०%)

पेकींग : २५०, ५०० ग्राम (पाउच)

डोझ : १०० थी १५० ग्राम / एकड,
१५ थी २० ग्राम / पंप

उपयोग : किसी भी फसल में ड्रीप या स्त्रे के द्वारा प्रयोग करे।

विज्ञान-२० के उपयोग करने के लाभ...

- फूलो की अवस्था से ही फल, बीज तथा रस उत्पन्न करने का कार्य करता है।
- फलो की संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- उत्पाद और उत्पादन की निरंतर गुणवत्ता प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कडी समान कार्य करता है।
- फल या फूल को गिरने या फटने से रोकता है साथ ही गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी देता है।
- होर्मोन्स के स्तर को नियंत्रित करके पौधो की उचित वृद्धि को बढ़ावा देता है।
- पौधो के लिए प्रोटीन और अमिनो एसिड के निर्माणमें मदद करता है।
- विज्ञान-२० कोशिका विभाजन, प्रोटीन की रचना और नाइट्रोजन उपाचय की प्रक्रिया के लिये बहुत उपयोगी है।



नाइट्रोकेल्क

स्प्रे / ड्रीप / सोइल न्यूट्रियन्ट



तत्व : कैल्शियम (१८.५%), नाइट्रोजन (१५.५%)

पेकींग : १ किग्रा (पाउच)

डोझ : १०० ग्राम / पंप, १२ थी १५ किग्रा / एकड

उपयोग : स्प्रे, ड्रीप, बुनियादी या पूरक उर्वरक के रूप में
उपयोग कर सकते हैं।

नाइट्रोकेल्क के उपयोग करने के लाभ...

- मिट्टी की अम्लता को कम करता है और मिट्टी में से कैल्शियम, मैग्नेशियम और पोटेशियम के शोषण में बढ़ावा करता है।
- बीज उत्पादन और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
- फसल के लिए जरूरी कैल्शियम और नाइट्रोजन की पूर्ति करता है।
- मिट्टी के पी.एच. स्कोर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- पौधे की जड़ों को मजबूत करता है और प्रतिकूल परिस्थिति में भी उत्पादन के लक्ष्य को बनाये रखता है।



स्प्रे/ड्रीप/सोइल न्यूट्रियन्ट गुजरात गवर्मेन्ट ग्रेड-१

सिग्नेचर

तत्व : जिंक (४%), फेरस (२%), कोपर (०.३%), बोरोन (०.५%), मैंगनीझ (०.५%)

पेकींग : ५०० मीली, १ लीटर (बोटल)

डोझ : १ से २ लीटर/एकड, ३० से ४० मिली/पंप

उपयोग : किसी भी फसल में स्प्रे, ड्रीप द्वारा या पानी के साथ मिलाकर दे।

सिग्नेचर के उपयोग करने के लाभ...

- जरूरी सुक्ष्मत्वों की कमी दूर करके पौधे को तंदुरस्त रखता है।
- पौधे में से फूलों को गिरने से और फलों को फटने से रोकता है।
- सुक्ष्मत्वों की कमी के कारण पौधे को पीला पड़ने से या लाल होने से रोकता है, पौधे का हरापन बनाये रखता है।
- पानी में संपूर्ण घुलनशील होने के कारण छिड़काव एवं ड्रीप इरीगेशन में इस्तेमाल करना सरल है।
- गुजरात की मिट्टी का अभ्यास करके गुजरात सरकार द्वारा दर्शाया गया ग्रेड है।



ओक्सीन

स्प्रे / ड्रिप न्यूट्रीयन्ट



तत्व : जिंक (३८.५ % SC)


पेकींग : ५०० मीली (बोटल)

डोझ : ०.७५ से १.५ मीली/लीटर
२५० से ३०० मीली/एकड (ड्रिप)

उपयोग : किसी भी फसल में ड्रिप या स्प्रे के द्वारा प्रयोग करे।

ओक्सीन के उपयोग करने के लाभ...

- ओक्सीन एक सुक्ष्मतत्व जिंक युक्त सस्पेंशन कोन्सन्ट्रेट लीक्वीड है जिसमें जिंक की मात्रा अधिक होती है।
- प्रोटीन संश्लेषण के लिये जिम्मेदार एंजाइमों को सक्रिय करता है।
- नाइट्रोजन की चयापचय की क्रिया को बढ़ावा देता है और प्रोटीन एवं स्टार्च का उत्पादन करता है।
- जिंक हरितद्रव्य और कार्बोहाइड्रेट के निर्माणमें शामिल है और ओक्सीन के निर्माण को बढ़ावा देता है इसलिए यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है।
- परंपरागत जिंक फोर्म्यूलेशन की तुलना में पौधों को अधिक जिंक प्रदान करता है।



तत्व : ब्रासीनोलाइड (१०००० ppm)
 पेकाग : ५० मीली, १०० मीली (बोटल)
 डोज : ८ थी १० मीली/पंप
 वपराश : किसी भी फसल में स्प्रे द्वारा प्रयोग करे।

ओक्सीन के उपयोग करने के लाभ...

- ब्रास-१० ओ पोलिहाइड्रोक्सीस्टेरोइड्स ग्रुप से संबंधित एक प्लान्ट होर्मोन्स है।
- ब्रास-१० एक 10000 ppm का हाइकोन्सट्रेट द्रावण छे.
- फसलमें फूलो का बढावा करता है और पौधे की अनुचित वानस्पतिक वृद्धि को रोकता है।
- ओक्सिडेशन प्रक्रिया को बढाता है और पौधो की जडो से उपर तक की प्रक्रिया को तेज करता है।
- पौको की विविध प्रक्रियाओं जैसे की कोशिका विभाजन, कोशिका विस्तरण एवं अजैविक और जैविक प्रतिक्रिया प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।



इम्युनीटी⁺

तत्व : अमीनो एसिड, अंटीबॉटिक, नाटका,
ओक्सीन, 6 बी. ए., प्रोटीन्स, वीटामीन्स
पेकींग : २० मीली (बोटल)
डोझ : ५ मीली/पंप
उपयोग : किसी भी फसल में स्प्रे द्वारा प्रयोग करें।

इम्युनीटी⁺ के उपयोग करने के लाभ...

- इम्युनीटी⁺ एक नेनो टेक्नोलॉजी युक्त उत्पादन है जो पौधों की जरूरी ऐसे विभिन्न हार्मोन्स, प्रोटीन्स, वीटामीन्स और एसिड की जरूरतों को सरलता से पूरा करता है।
- इम्युनीटी⁺ में मौजूद पोषण अति सूक्ष्मकण के स्वरूप में होने के कारण पत्तों द्वारा बहुत ही आसानी से शोषित किया जाता है, जिससे उत्तम परिणाम मिलता है।
- परंपरागत रूप से छिड़काव किये गये तत्वों की तुलना में फसल और पर्यावरण के लिये ज्यादा सुरक्षित है।
- फसल में सभी प्रकार से शाखा, फूल, फल, गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि करता है।
- प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियामें वृद्धि करके फसल के हरापन को लंबे समय तक बनाये रखता है।

स्प्रे न्यूट्रीअन्ट
नेनो टेक्नोलॉजी



तत्व : 6 BA (बेन्झाइलअमिनोप्युरीन)

पेकाग : ५० ग्राम (डिब्बा)

डोज : ५५ ग्राम/पंप, ५० ग्राम/अेकर

वपराश : स्प्रे द्वारा प्रयोग किजीये।

ग्लुकोन-६ के उपयोग करने के लाभ...

- 6 BA एक अडेनाइन ग्रुप का सीन्थेटीक सायटो कायनीन है।
- कोशिका विभाजन को बढ़ावा करके फूलों की संख्या में वृद्धि करता है।
- किसी भी फसलमें फूलों में से फल बनाने की प्रक्रियामें मददरूप बनता है।
- फूलों और फलोंकी संख्या बढ़ाकर उत्पादीत फल का कद बढ़ाता है।
- कोषिका विभाजन और विस्तरण को प्रोत्साहन देता है।



जैविक घटक : अेकटो और अेन्डो माइकोराइज़ा
(60 (pores/1200 IP/gm)

पेकींग : १०० ग्राम (डिब्बा)

डोझ : १०० ग्राम/अेकर

उपयोग : ड्रीप द्वारा, ड्रेन्चींग द्वारा या गोबर/ओर्गेनिक
कम्पोस्ट/रेत के साथ मिश्रीत करके खडी
फसल की जडो के पास दीजीये ।

जीवंत माइको के उपयोग करने के लाभ...

- मुख्य जडों और रेशेदार जडों का विकास करता है ।
- प्रतिकूल मौसम की विपरीत परिस्थिती का सामना करने के लिये पौधो की क्षमता को बढाता है ।
- पौधो द्वारा लिए पोषक तत्वों की ग्रहणशक्ति और उसकी गतिशीलता को बढाता है ।
- मिट्टी की भेज संग्रहशक्तिमें वढावा करके विपरीत परिस्थितीमें पौको को जरूरी नमी की पूर्ति कराता है ।
- अधिक उपज और उच्च गुणक्तायुक्त उत्पादन देता है ।
- माइकोराइज़ा पौधो की जडों के साथ अपना सहजीवन बनाकर फोस्फरस एवं आवश्यक सुक्ष्मतत्वो को ग्रहण करने में मदद करता है ।



हुमीफलो

तत्व : हुमीक अेसीड (१२ %), PSB (1×10^8 /ml)

पेकींग : ५०० मीली, १ लीटर (बोटल),
५ लीटर (केन)

डोझ : १ से २ लीटर/एकड, ३० मीली/पंप

उपयोग : किसी भी फसल में स्प्रे, ड्रीप द्वारा या पानी के साथ मिलाकर दे ।

हुमीफलो के उपयोग करने के लाभ...

- कमजोर/भारी मिट्टी/पानी की संरचना का संतुलन बनाए रखता है और पौधे के जड़ क्षेत्र का विकास करता है ।
- मिट्टी में पर्याप्त कार्बन की पूर्ति करके जैविक प्रक्रिया बढ़ाता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है ।
- मिट्टी में मौजूद या उपर से दिये गए पोषकतत्वों को पौधे सरलतासे खुराक के रूप में उपयोग कर सकते हैं ।
- प्रतिकूल वातावरण में पौधों को टिकाए रखता है ।
- हुमीफलो में शामिल PSB मिट्टी में मौजूद अनुपलब्ध फोस्फोरस को फसल के लिए उपलब्ध बनाकर पी. अेच. स्कोर को नियंत्रित करता है ।

लाइट प्रो®

- तत्व : सल्फर (४०%), कैल्शियम
- पेकींग : ५०० मीली, १ लीटर (बोटल),
५ लीटर (केन), १५ लीटर (कोक केन)
- डोज : १ लीटर/एकड़, ३० मीली/पंप
- उपयोग : किसी भी फसल में स्प्रे, ड्रिप द्वारा या पानी के साथ मिलाकर दे ।

लाइट प्रो के उपयोग करने के लाभ...

- लाइट प्रो एक कैल्शियम युक्त उच्च घनतावाला प्रवाही सल्फर है ।
- मिट्टी और पानी में मौजूद क्षार को दूर कर मिट्टी को समृद्ध और मुलायम बनाता है ।
- पौधों की जड़ों के पास जमा होनेवाली अतिरिक्त नमी को शोष लेता है ।
- मिट्टी जन्य फुग का असरकारक नियंत्रण करता है ।
- उच्च घनतावाला लाइट प्रो मिट्टी में मौजूद अनुपलब्ध तत्वों को उपलब्ध रूप में परिवर्तित करके पौधों में स्टार्च, शर्करा, तेल, विटामिन का बढ़ावा करता है ।
- फसल के लिए जरूरी कैल्शियम और सल्फर तत्व की पूर्ति करता है ।

स्प्रे / ड्रिप / सोइल फंक्सीसाइड



तत्व : स्टीकर और स्प्रेडर (सिलीकोनयुक्त)

पेकींग : ५० मीली, १०० मीली

डोज : ३ से ५ मीली/पंप

उपयोग : किसी भी किटनाशक के साथ मिलाकर दे।

चिपकु के उपयोग करने के लाभ...

- अग्रे केमिकल्स को पत्तों पर अंक समान और तेजी से फैलाता है।
- बारीश के कारण पत्तों के उपर से अग्रे केमिकल्स का धुलना कम करके नुकसान कम करता है।
- अग्रे केमिकल्स के असर में बढावा करके स्प्रे की मात्रा को कम करता है।
- उच्च स्थिरता के गुण की वजह से किसी भी अग्रे केमिकल्स के साथ मिश्र किया जा सकता है।
- सिलीकोनयुक्त मटीरीयल होने की वजह से कार्बन आधारित स्प्रेडर और स्टीकर्स की तुलना में अधिक प्रभावी है।



तत्व : स्टीकर और स्प्रेडर (सिलीकोनयुक्त)

पेकींग : २००, ५०० मीली, १ लीटर

डोज : २० से २५ मीली/पंप

उपयोग : किसी भी किटनाशक के साथ मिलाकर दे।

चिपकु माइलड के उपयोग करने के लाभ...

- अग्रे केमिकल्स को पत्तों पर अंक समान और तेजी से फैलाता है।
- बारीश के कारण पत्तों के उपर से अग्रे केमिकल्स का धुलना कम करके नुकसान कम करता है।
- अग्रे केमिकल्स के असर में बढ़ावा करके स्प्रे की मात्रा को कम करता है।
- उच्च स्थिरता के गुण की वजह से किसी भी अग्रे केमिकल्स के साथ मिश्र किया जा सकता है।
- सिलीकोनयुक्त मटीरीयल होने की वजह से कार्बन आधारित स्प्रेडर और स्टीकर्स की तुलना में अधिक प्रभावी है।



तत्व : युरीया अमोनियम नाइट्रेट (३२ %)


पेकींग : ५०० मिली (बोटल)

डोज : ४ से ५ मिली/लीटर

उपयोग : स्प्रै द्वारा

ग्वुरीया के उपयोग करने के लाभ...

- फसल की नाइट्रोजन की आवश्यकता को सफलतापूर्वक पुरा करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को तेज करता है।
- फसल पर बेहतर प्रभावशीलता और कार्यक्षमता के कारण पारंपरिक तरीके से इस्तेमाल होनेवाले युरीया की खपत को ५० % से ज्यादा कम किया जा सकता है।
- पारंपरिक तरीके से इस्तेमाल होनेवाले युरीया के खिलाफ ग्वुरीया के उपयोग से भुर्गभ जल की गुणवत्ता में सुधार और ग्लोबल वॉर्मिंग को कम करने में मददगार साबित होता है।
- फसलें सामान्य युरीया को लोहे के रूप में लेती है, जबकि नैनो युरीया सूक्ष्मकण के रूप में होने से पौधों के अंदर पहुँचकर नाइट्रोजन छोड़ता है जो पौधों के अंदर पहुँचाता है ताकि पौधा नाइट्रोजन को बेहतर तरीके से शोष लेता है।



डीएपीजी

स्प्रै न्यूट्रीयन्ट



तत्व : नाइट्रोजन (१०%), फोस्फरस (३४%)

पेकींग : ५०० मिली (बोटल)

डोज : ४ से ५ मिली/लीटर

उपयोग : स्प्रै द्वारा

डीएपीजी के उपयोग करने के लाभ...

- फसल की नाइट्रोजन और फोस्फरस की जरूरत को सफलतापूर्वक पुरा करता है।
- फसल की वृद्धि उपज और गुणवत्ता बढ़ाता है साथ ही अन्य पोषकतत्वों के उपयोग में कार्यक्षमता बढ़ाता है।
- फसल पर बेहतर प्रभाव और कार्यक्षमता के कारण पारंपरिक पद्धति से उपयोग किये जानेवाले फोस्फेटिक उर्वरकों के उपयोग को कम किया जा सकता है।
- डीएपीजी में सामील पोषण अतिसूक्ष्म कणों के रूप में होने से पत्तों द्वारा आसानी से शोषित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तम परिणाम प्राप्त होता है।
- पारंपरिक रूप से छिड़काव किए गए तत्वों की तुलना में फसल और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है।



बायो नीमेटोसाइड

जीवंत पोचोनीया

- जैविक घटक : वर्टीसीलीयम क्लेमाइडोस्पोरीया
1.0 % W.P. (CFU : 2×10^6 /gm.)
- पेकींग : १ किग्रा (पाउच)
- डोझ : १ किग्रा/एकड
- उपयोग : गोबर खाद, ओर्गेनिक कम्पोस्ट, रेत के साथ
मिश्रण करके खड़ी फसल में दिजीये।

पोचोनीया के उपयोग करने के लाभ...

- यह एक जैविक कृमिनाशक है जो कृमि के अंडो को खाता है और मादा कृमि के प्रजनन अंगो को संक्रमित करके नष्ट कर देता है।
- कृमियों के प्रभावी नियंत्रण के अलावा यह फसल की वृद्धि और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- फसल में लगने वाले कृमि जैसे के कीडनी के आकारवाले, कवच, जड़ों को काटनेवाले, जड़ों पर काले धब्बे करनेवाले, गांठ बनाने वाले सभी कीड़ों को प्रभावी ढंग से नियंत्रण करता है।
- रासायनिक कृमिनाशको की तुलना में कम खर्च होता है।
- जीवंत पोचोनीया के उपयोग से रोगकारक कृमि अपनी प्रतिकारक शक्ति नहि बना पाती।



जीवंत ब्युवेरीया

जैविक घटक : ब्युवेरीया बेसीयाना

1.15 % W.P. (CFU : 1×10^9 /gm.)

पेकींग : १ किग्रा

डोझ : ५० थी ६० ग्राम/पंप, १ से २ किग्रा/एकड़

उपयोग : कीटकों के आधार पर किसी भी फसल में
बूनियादी खाद, पूरक खाद, ड्रेन्चींग या स्प्रे
के रूप में दिजीये।

ब्युवेरीया के उपयोग करने के लाभ...

- ब्युवेरीया बेसीयाना अन्टोमोपेथोजेनिक फफूंद है जे किटको और इल्लीयों की विभिन्न श्रृंखला के उपर परजीवी के रूप में कार्य करके उसका नियंत्रण करता है।
- फूग आधारित जैविक कीटनाशक है जो सभी प्रकार की इल्ली और किटको शरीर पर जाकर कीटको के अंदर प्रवेश करके उनकी संरचना को तोड़कर उनका नियंत्रण करता है।
- जीवंत ब्युवेरीया के उपयोग से रोगकारक फफूंद अपनी प्रतिकारक शक्ति नहि बना पाती।
- रासायनिक फफूंदनाशको की तुलना में कम खर्च होता है।
- छिंडकाव में अधिक अच्छे परिणाम के लिए चीपकु ३ मिली/पंप मिश्र करके छिंडकाव किजीए।

बायो इन्सेक्टीसाइड



बायो फंगीसाइड

जीवंत स्युडोमोनास

जैविक घटक : स्युडोमोनास फलोरेसेन्स
1.0 % W.P. (CFU : 10×10^8 /gm.)

पेकींग : १ किग्रा (पाउच)

डोझ : १ किग्रा/एकड़

उपयोग : गोबर खाद, ओर्गेनिक कम्पोस्ट, रेत के साथ
मिश्रण करके खड़ी फसल में दिजीये।

जीवंत स्युडोमोनास के उपयोग करने के लाभ...

- जड़ों का सड़ जाना, पौधों का सुखना, जड़ें खानेवाली फफूंद, और विभिन्न मिट्टी से संबंधित फफूंद का असरदायक नियंत्रण करता है।
- यह फंगीसाइड कुछ खास प्रकार के पदार्थों और एन्टीबायोटिक उत्पन्न करके विविध फफूंद का जैविक नियंत्रण करता है।
- पौधों की शारीरिक प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होनेवाले पदार्थ पौधों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं।
- रासायनिक फफूंदनाशकों की तुलना में कम खर्च होता है।
- जीवंत स्युडोमोनास के उपयोग से रोगकारक फफूंद अपनी प्रतिकारक शक्ति नहीं बना पाती।




जीवंत ट्रायको

- जैविक घटक : ट्रायकोडर्मा वीरडी
1.5% W.P. (CFU Count: 2×10^6 /gm. min.)
- पेकींग : १ किग्रा (पाउच)
- डोझ : १ से २ किग्रा/एकड़
- उपयोग : गोबर खाद, ओर्गेनिक कम्पोस्ट, रेत के साथ
मिश्रण करके खड़ी फसल में दिजीये।
- बीज के साथ : १० ग्राम / किग्रा

जीवंत ट्रायको के उपयोग करने के लाभ...

- फसल में दिखने वाले विभिन्न रोग जैसे के बीज का सड़ जाना, सुखापन, जड़ों का सड़ जाना सबका असरदायक तरीके से नियंत्रण करता है।
- मुंगफली का पौधा और दानों की फूग (स्केलेरीशीयम रोलफसाइ), जड़ों की फूग (राइझोक्टोनिया), सुखेपन की फूग (फ्युझेरीयम), पौधे की फूग (पीथीयम) एवं नन्हे पौधे की फूग (फायटोपथोरा) आदि का असरदायक तरीके से जैविक नियंत्रण करके पौधे को रोगों से बचाता है।
- रासायनिक फफूंदनाशकों की तुलना में कम खर्च होता है।
- जीवंत ट्रायको के उपयोग से रोगकारक फफूंद अपनी प्रतिकारक शक्ति नहीं बना पाती।

बायो फंगीसाइड



रीसर्च गेहूं बीज

जी-वीन ९
रीसर्च गेहूं बीज

बीज : संशोधित गेहूं बीज

पेकींग : २० किग्रा (बेग)

बीजदर : ४० किग्रा/एकड

जीवीन-९ गेहूं बीज की विशेषताएँ...

- प्रतिकूल मौसम और तेज हवाओं के सामने टिक सकती है, बहुत गहरे हरे रंग के पौधों वाली प्रजाति ।
- एक बीज में से निकलती ७ से २२ जितनी फूट (टीलरींग), लंबाई ६ से ९ इंच ।
- हर एक डंडी में ६० से ९० बीज होने के कारण ज्यादा उत्पादन ।
- दानों में कुदरती शर्करा का प्रमाण ज्यादा होने से खाने में ज्यादा मीठाश ।

सुचन : ज्यादा उत्पादन के लिए जी-वीन की सिफारीश के अनुसार संतुलित पोषण दीजिये ।



जी-वीन 11

रीसर्च गेहूं बीज – सोनला शरबती टुकड़ा

रीसर्च गेहूं बीज



बीज : संशोधित गेहूं बीज
पेकींग : २० किग्रा (बेग)
बीजदर : ४० किग्रा/एकड

जीवीन-११ गेहूं बीज की विशेषताएँ...

- सोनला शरबती टुकड़ा बेरायटी ।
- उच्च गुणवत्ता रीसर्च गेहूं बीज ।
- प्रतिकूल मौसम और तेज हवाओं के सामने टिक सकती है, बहुत गहरे हरे रंग के पौधे वाली प्रजाति ।
- एक बीज में से निकलती ७ से २२ जितनी फूट (टीलरींग), मोटी डंडी और हर एक डंडी में दानों की ज्यादा संख्या ।
- दानों में कुदरती शर्करा का प्रमाण ज्यादा होने से खाने में ज्यादा मीठाश ।

सुचन : ज्यादा उत्पादन के लिए जी-वीन की सिफारीश के अनुसार संतुलित पोषण दीजिये ।



चलीये, कृषि को बचायें आनेवाली पीढी के लिये...



G-VIN PRODUCTS LIMITED

206, Rajpath Avenue, Opp. Tapovan School, 150 Feet Ring Road,
Rajkot - 360004, Email : gvinproductsltd@gmail.com



Customer Care : +91 95102 82007

www.g-vingroup.com